



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1030 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2003/कार्तिक 23, 1925

No. 1030 ]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2003/KARTIKA 23, 1925

श्रम मंत्रालय

(वेतन प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2003

का.आ. 1315 (अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 की धारा 11) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिसे अधिनियम की धारा 9 के साथ और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 1950 के नियम 3 के साथ पठित तथा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 29-5-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 467(अ) के अधिक्रमण में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

## I. स्वतंत्र सदस्य

- |  |  |
|--|--|
| 1. श्री राम कृपाल सिन्हा, भाजपा कार्यालय, 11अशोक रोड, नई दिल्ली-110001   | अध्यक्ष                                |
| 2. श्री बी.पी. आपटे, गिरीश बिल्डिंग, टी.ए. कटारिया रोड, माहिम, मुंबई-400016  | संसद सदस्य, राज्य सभा                  |
| 3. श्री लक्ष्मीकांत वाई. पारशेकर, विधायक, गोआ विधानसभा, बामन भाटी, हरमाल मंदरम, गोआ-403524   | विधायक, गोआ विधानसभा,                  |
| 4. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विधायक, झारखंड विधानसभा, रसियन होस्टेल, एच.ई.सी, कमरा सं.-108-110, धुर्वा, रांची-834004                         | प्रतिनिधि, झारखंड सरकार                |
| 5. डॉ. आर.एम. सिंह, प्राचार्य, शहीद सुखदेव, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, विवेक विहार, दिल्ली-110092   | अर्थशास्त्री                           |
| 6. श्री राम नगीना रॉय, पीठासीन अधिकारी, सी.जी.आई.टी., दिल्ली-2, ब्लॉक सं.1, तीसरा तल, त्रिकूट काम्प्लेक्स, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 | पीठासीन अधिकारी, सी.जी.आई.टी, दिल्ली-2 |

(1)

7.	अध्यक्ष, राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ (श्री प्रेम प्रशांत, वित्त आयुक्त और प्रधान सचिव) कमरा सं. 202, नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर-17, चंडीगढ़	अध्यक्ष, राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, हरियाणा
8.	श्री एम.के. मिश्रा, वित्त श्रम आयुक्त-सह-सचिव, (श्रम) आयुक्त का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, भूतल, 5 श्यामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110052	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
9.	श्री गिरीजा शंकर जोशी, श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त का कार्यालय, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तरांचल	प्रतिनिधि, उत्तरांचल सरकार
10.	श्री राजेन्द्र भनावत, श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर-302001	प्रतिनिधि, राजस्थान सरकार
11.	श्रीमती राजलक्ष्मी, प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर-751001	प्रतिनिधि, उड़ीसा सरकार
12.	श्री इलियास जॉर्ज, सचिव, श्रम और पुनर्वास विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम-695001	प्रतिनिधि, केरल सरकार

## II. नियोक्ता प्रतिनिधि

1.	श्री जी. रामानंद, अध्यक्ष, औद्योगिक संबंध समिति, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पोस्ट बॉक्स सं. 9996, कैम्पगौड़ा रोड, बंगलौर-560009	भारतीय परिषद्	नियोक्ता
2.	श्री आर.के. जैन, महासचिव, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी., 180, विशालखंड, पो.बॉक्स सं. 17, गोमती नगर, लखनऊ-226010	-वही-	
3.	डॉ. एस.एम. दीवान, महानिदेशक, स्कोप, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	-वही-	
4.	श्री के.के. सिन्हा, निदेशक, (मानव संसाधन), एनटीपीसी, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	-वही-	
5.	श्री बी. श्रीधर, कार्यकारी निदेशक, गोआ मिनरल ओर एक्पोर्ट्स एसोसिएशन, वाग्लो बिल्डिंग, पंजिम-403001, गोआ	-वही-	
6.	श्री सी.वी. पावस्कर, अधिवक्ता, 3/19, 11वाँ तल, नवजीवन सोसाइटी, लेमिंगटन रोड, मुंबई-400008	-वही-	
7.	श्री सुरेन्द्र धरप, मैसर्स ओपल इन्स्ट्रुमेंट्स, 962, सदाशिव पेठ, भानु विकास चौक, लक्ष्मी रोड, पूणे-411030	लघु उद्योग भारती	
8.	श्री अरुण सी. खन्ना, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मनुफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड मैसर्स फास्ट फूड्स प्रा. लिमि., सी-14, मेरठ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	ऑल इंडिया मनुफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई	

- |     |   |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|
| 9.  | श्री राहुल एन. बलडोटा, कार्यकारी निदेशक, एम.एस.पी.एल. लिमि., नेहरु कॉ-ऑपरेटिव कॉलोनी, होशपत-583203<br>जिला- बेल्लारी, कर्नाटक | फेडरेशन ऑफ इंडियन<br>मिनरल इंडस्ट्रीज |
| 10. | श्री बी. मजुमदार, संयुक्त निदेशक, स्थापना (एल.एल.) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली-110001                                     | प्रतिनिधि, रेल मंत्रालय               |
| 11. | श्री सुनील बर्थवाल, निदेशक, खान मंत्रालय, कक्ष सं. 309, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001                               | प्रतिनिधि, खान मंत्रालय               |
| 12. | श्री काशी नाथ मिश्रा, भारतीय किसान संघ, 1, विनायक भवन, ए.पी. सेन रोड, लखनऊ -226001.   | प्रतिनिधि, भारतीय<br>किसान संघ        |

### III. कर्मकार प्रतिनिधि

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | श्री बसंत एम. पिंपलापुरे, महासचिव, 326-ए, नलिनी अपार्टमेन्ट, प्रभु सांस्कृतिक हॉल के पीछे, नया सूबेदार लेआउट नागपुर-440024   | भारतीय मजदूर संघ  |
| 2.  | श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र, 4/3 दादा नगर, लेबर कॉलोनी, कानपुर-208001   | -वही-   |
| 3.  | श्री बी. ब्रह्मानंदराव, सदस्य, भारतीय मजदूर संघ, आंध्र प्रदेश राज्य कार्यकारी समिति, एम.आई.जी. 1-43, वीयूडीए कॉलोनी, विनायकनगर पदगाथानंद, गजुवाका पोस्ट, विशाखापट्टनम-530044   | -वही-   |
| 4.  | श्री एन.सी. डे, 8/35/4, कालिंदी हाउसिंग इस्टेट, लेक टाउन, कोलकाता-712201   | -वही-   |
| 5.  | श्री जी. कलान, संगठन सचिव, इंटक, जीआर भवन, 87 रॉयलपेठ हाई रोड- चेन्नई-600014   | इंटक  |
| 6.  | श्री चंद्र प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, इंटक, (बिहार राज्य), 143 एम.एल.ए. फ्लैट्स, ईस्ट गेट हाई कोर्ट पटना-800001   | इंटक  |
| 7.  | श्री एस. विरैय्या, सचिव, सीटू, महासचिव (सीटू आंध्र प्रदेश) एन.वी. भास्कर राव स्मारक केंद्र, मुशीदाबाद, हैदराबाद-500020   | सीटू  |
| 8.  | श्री सूर्यकांत बगल, महासचिव, हिन्द मजदूर सभा, महाराष्ट्र राज्य परिसद, फ्लैट सं. 204, शिवकृपा कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमि., प्लॉट सं. 9, जकारिया बंदर रोड, कॉटनग्रीन-400033 | हिन्द मजदूर सभा   |
| 9.  | श्री अचिंत्य सिन्हा, सचिव अखिल भारत, यूटक, लैनिन सरणी, 77/2/1, लैनिन सरणी, कोलकाता-700013  | यूटक (एल एम)  |
| 10. | श्री पी.जी. गुहा, यूटक कार्यालय, 249, बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, बावबाजार, कोलकाता 12, प. बंगाल   | यूटक  |
| 11. | श्री सुजित कुमार विश्वास, सामान्य परिषद के सदस्य, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, एनएफआईटीयू, 10 गवर्नमेंट प्लेस, इस्ट इग्रा मेन्शन, कोलकाता-700069                      | नेशनल फ्रंट ऑफ<br>इंडियन ट्रेड यूनियन्स<br>(एनएफआईटीयू) |
| 12. | श्री सी. दिवाकरन, महासचिव, केरल राज्य, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), सुगाथन मेमोरियल बिल्डिंग, सुगाथन रोड, तिरुवनंतपुरम-695014  | ऑल इंडिया ट्रेड<br>यूनियन कांग्रेस<br>(एटक)             |

[फ. सं. एस. 32019/5/2003-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)]

बालेश्वर राय, अपर सचिव (अम)

## MINISTRY OF LABOUR

(WAGE CELL)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2003

**S.O. 1315(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with Section 9 of the said Act and Rule 3 of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 1950, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 467(E), dated the 28th May, 2001, the Central Government hereby appoint the following persons to the Central Advisory Board, namely :—

**I. INDEPENDENT MEMBERS**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Shri Ram Kirpal Sinha,<br>BJP Office, 11 Ashoka Road,<br>New Delhi – 110 001   | Chairman  |
| 2. Shri B.P. Apte, Girish Building, T. A. Kataria<br>Road, Mahim, Mumbai – 400 016  | Member of Parliament<br>(Rajya Sabha)                           |
| 3. Shri Laxmikant Y. Parsekar, MLA, Goa<br>Legislative Assembly, Bammon Bhati, Harmal<br>Mandram, Goa – 403 524   | Member, Legislative<br>Assembly, Goa                            |
| 4. Shri Rajender Prasad Singh, M. L. A.,<br>Jharkhand, Russian Hotel (HEC) Room No. 108 –<br>110 Dhurva, Ranchi – 834 004   | Member, Legislative<br>Assembly, Jharkhand                      |
| 5. Dr. R.M. Singh, Principal, Shaheed Sukhdev<br>College of Business Studies, Vivek Vihar, Delhi –<br>110 092   | Economist   |
| 6. Shri Ram Nagina Rai, Presiding Officer of CGIT-<br>Delhi-II, Block No. – I, 3 <sup>rd</sup> Floor, Trikot<br>Complex, Bhikajee Cama Palace,<br>New Delhi – 110 066   | Presiding Officer of CGIT-<br>Delhi-II                          |
| 7. The Chairman, State Minimum Wages Advisory<br>Board, Government of Haryana, Chandigarh<br>(Shri Prem Prashant, Financial Commissioner<br>and Principal Secretary), Room No 202, New<br>Haryana Civil Secretariat, Sector – 17,<br>Chandigarh | The Chairman, State<br>Minimum Wages Advisory<br>Board, Haryana |
| 8. Shri M.K. Mishra, Labour Commissioner cum<br>Secretary (Labour), O/o the Labour<br>Commissioner, Government of NCT of Delhi, G-<br>Floor, 5 Shamnath Marg, Delhi – 110 052.  | Representative, State<br>Government of NCT of<br>Delhi.         |

- |  |   |
|--|---|
| 9. Shri Girija Shanker Joshi, Labour Commissioner, O/o Labour Commissioner, Nainital Road, Haldwani (Nainital), Uttaranchal. | Representative, State Government of Uttaranchal |
| 10. Shri Rajendra Bhanawat, Labour Commissioner, Government of Rajasthan, Jaipur - 302 001                                   | Representative, State Government of Rajasthan.  |
| 11. Smt. Raj Laxmi, Principal Secretary, Labour & Employment Department, Government of Orissa, Bhubaneshwar - 751 001        | Representative, State Government of Orissa      |
| 12. Shri Elias George, Secretary, Labour & Rehabilitation Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram - 695 001     | Representative, State Government of Kerala      |

## II. EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

- |   |   |
|---|---|
| 1. Shri G. Ramanand, Chairman IR Committee, Federation of Karnataka Chambers of Commerce & Industry, P. B. No.9996 Kampegowda Road, Bangalore - 560 009.                            | Council of Indian Employers                   |
| 2. Shri R.K. Jain, Secretary General, Associated Chambers of Commerce & Industry of UP, 180 Vishal Khand, Post Box No.17, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010.                           | - DO -  |
| 3. Dr. S.M. Dewan, Director General, SCOPE, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.   | - DO -  |
| 4. Shri K.K. Sinha, Director (HR) NTPC, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.   | - DO -  |
| 5. Shri B. Sridhar, Executive Director, Goa Mineral Ore Exporters Association, Vaglo Building, Panjim - 403 001, GOA.   | - DO -  |
| 6. Shri C.V. Pavaskar, Advocate, 3/19, 11 <sup>th</sup> Floor, Navjivan Society, Lamington Road, Mumbai - 400 008.  | - DO -  |
| 7. Shri Surendra Dharap, M/S Opel Instruments, 962, Sadashiv Peth, Bhanu Vikas Chowk, Laxmi Road, Pune - 411 030  | Laghu Udyog Bharti                            |
| 8. Shri Arun C. Khanna, Chairman, All India Manufacturers Organizations, U. P. State Board M/S Fast Foods Pvt. Ltd., C - 14, Meerut Road Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh. | All India Manufacturers Organizations, Mumbai |

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.  | Shri Rahul N. Baldota, Executive Director, MSPL Limited, Nehru Co-operative Colony, Hospat – 583 203 District: Bellary, Karnataka. | Federation of Indian Mineral Industries |
| 10. | Shri B. Mazumdar, Joint Director, Establishment (LL), Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi – 110 001.                             | Representative,<br>Ministry of Railway  |
| 11. | Shri Sunil Barthwal, Director, Ministry of Mines Room No. 309 "D" Wing Shastri Bhawan, New Delhi – 110 001                         | Representative,<br>Ministry of Mines    |
| 12. | Shri Kashi Nath Mishra, Bhartiya Kisan Sangh, 1, Vinayak Bhawan, A. P. Sen Road, Lucknow – 226 001                                 | Representative,<br>Bhartiya Kisan Sangh |

### III. EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Shri Vasant M. Pimplapure, General Secretary, 326 A, Nalini Apartment, Behind Prabhu Sanskrutik Hall, New Subhedar Layout, Nagpur – 440 024.   | Bhartiya Mazdoor Sangh               |
| 2 | Shri Sukhdev Prasad Mishra, 4/3, Dada Nagar, Labour Colony, Kanpur – 208 001.  | - DO -                               |
| 3 | Shri V. Brahmananda Rao, Member, BMS Andhra State Executive Committee, MIG 1-43, VUDA Coloy, Vinjyakanagar Padagatyananda, Gajuwaka Post, Visakhapatnam – 530 044.                         | - DO -                               |
| 4 | Shri N.C. Dey, 8/35/4, Kalindi Housing Estate, Lake Town, Kolkata – 712 201.   | - DO -                               |
| 5 | Shri G. Kalan, Organising Secretary, INTUC, G.R. Bhavanam, 87 Royapettah High Road, Chennai – 600 014.   | Indian National Trade Union Congress |
| 6 | Shri Chandra Prakash Singh, President, INTUC (Bihar State), 143, MLA Flat, East Gate High Court, Patna – 800 001.  | - DO -                               |
| 7 | Shri S. Veeraiah, Secretary CITU and General Secretary (CITU – Andhra Pradesh) N.V. Bhaskara Rao Smaraka Kendra, Mursheerabad, Hyderabad – 500 020   | Centre of Indian Trade Unions        |
| 8 | Shri Suryakant Bagal, General Secretary, HMS, Maharashtra State Council, Flat No.204, Shivkrupa Co-op Housing Society Ltd. Plot No.9, Jackeria Bunder Road, Cottongreen, Mumbai – 400 033. | Hind Mazdoor Sabha                   |

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 9  | Shri Achintya Sinha, All India Secretary,<br>United Trade Union Centre – Lenin Sarani,<br>77/2/1, Lenin Sarani, Kolkata – 700 013.  | United Trade Union Centre<br>(LS)                |
| 10 | Shri P.G. Guha, United Trade Union Congress<br>Office, 249, Bipin Bihari Ganguly Street,<br>Bowbazar, Kolkata 12, West Bengal.  | United Trade Union<br>Congress                   |
| 11 | Shri Sujit Kumar Biswas, Member, of General<br>Council of National Front of Indian Trade<br>Unions (NFITU), 10 Government Place East<br>Egra Mansions, Calcutta – 700 069           | National Front of Indian<br>Trade Unions (NFITU) |
| 12 | Shri C. Diwakaran, General Secretary, Kerala<br>State Unit of All India Trade Union Congress<br>(AITUC), Sugathan Memorial Building,<br>Sugathan Road, Thiruvananthapuram – 695 014 | All India Trade Union<br>Congress (AITUC)        |

[F. No. S. 32019/5/2003-WC(MW)]

BALESHWAR RAI, Addl. Secy. (Labour)